

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
संबद्ध चिकित्सालय कोरबा, जिला—कोरबा (छ.ग)

स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.) के अधीनस्थ विभिन्न विभागों के लिए **Implant** क्रय किये जाने के संबंध में दर अनुबंध (**Rate Contract**) करने हेतु निविदा।

वर्ष — 2024–25

जारी दिनांक — 01.07.2024
जमा दिनांक — 31.07.2024

निविदा फार्म पर नियम एवं शर्तें दर्शाए गये हैं।

निविदा प्रपत्र : मूल्य 1000/-₹0



कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक

स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.)

Email- gmckorbaasso.hospital@gmail.com

क्र./जी.एम.सी.एच/क्र/निविदा/ 2024-25 / 2409

कोरबा, दिनांक... 26.06.2024

// निविदा //

स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.) के अधीनस्थ आर्थोपेडिक विभाग के लिए **Implant** क्रय किये जाने के संबंध में दर अनुबंध (Rate Contract) करने हेतु निविदा के माध्यम से इच्छुक फर्म/प्रदायकर्ता/डिलर/निर्माता कंपनी से खुली निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा प्रपत्र शुल्क – रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) वापसी योग्य नहीं है।

अमानत राशि (EMD) निम्नानुसार देय होगा

के नाम से	प्रस्तुत EMD का प्रकार	अमानत राशि (EMD) रु. में
JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA	FDR	Implant क्रय के लिए रु. 60,000/- (रु. साठ हजार मात्र)
निविदा फार्म जारी करने की तिथि	दिनांक 01.07.2024 से कार्यालयीन समय पर	
प्री बीड मिटिंग तिथि	दिनांक 15.07.2024 दोपहर 12:00 बजे स्थान— कार्यालय संयुक्त संचालक स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.)	
निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.07.2024 समय कार्यालयीन समय पर	
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 31.07.2024 समय दोपहर 3:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से	
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 31.07.2024 समय सायं 4:00 बजे, स्थान— कार्यालय संयुक्त संचालक स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.)	

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय के वेबसाइट sbdmscm.edu.in में अवलोकन कर सकते हैं।

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.)

४

Om

PM Bell ✓ 2

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक

स्व.बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.)

Email- gmckorbaasso.hospital@gmail.com

निविदा शर्तें

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.) के अस्थि रोग विभाग हेतु अस्पताल अधीक्षक की ओर से आर्थो इम्लान्ट्स का क्य किए जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये शर्तों के अनुसार निविदा आमंत्रित किया जाता है। जिसमें सिर्फ निर्माता कंपनियों अथवा उनके द्वारा अधिकृत विक्रेता ही भाग ले सकते हैं।

- 01 निविदा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्य नियम 2002 तथा यथा संशोधित 2022 के तहत आमंत्रित किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्य के सभी नियम लागू रहेंगे।
- 02 निविदा की वैधता एक वर्ष की रहेगी व सामग्रियों विभाग के मांग एवं मरीज की आवश्यकता अनुसार क्य की जाएगी। अति आवश्यक होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति पर भण्डार क्य नियमानुसार निविदा अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
- 03 उक्त निविदा में निविदा प्रतिभागी का आर्थो इम्लान्ट्स का न्यूनतम दर प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। जिसमें निविदा प्रतिभागियों द्वारा प्रदाय किए गए दरों का तुलनात्मक पत्रक के आधार पर एल-1 दर तैयार किया जाएगा। तत्पश्चात् एल-1 दर पर संयुक्त संचालक अस्पताल अधीक्षक कार्यालय द्वारा इम्लान्ट्स के गुणवत्ता के आधार पर फर्म से क्य करने की कार्यवाही किया जाएगा।
- 04 किसी भी आर्थो इन्स्ट्रूमेंट, आर्थो इम्लान्ट्स एक ही दर पाए जाने पर दर समझौता (Negotiation) द्वारा एल-1 दर निर्धारित किया जाएगा।
- 05 Consignments Basis सामग्रियों दैनिक मांग पत्र के आधार पर क्य की जाएगी। अतः निविदाकारों को पर्याप्त मात्रा में अपने पास स्टॉक (भण्डारण) रखना होगा। क्यादेश प्राप्त होने की तिथि से दो (02) दिवस के भीतर ही सामग्री अस्पताल अधीक्षक के स्टोर/विभाग में प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
- 06 विभागों के मांग के आधार पर सफल निविदाकारों को जारी क्यादेश के विरुद्ध प्रदाय की जाने वाली इम्लान्ट सामग्री को " इम्लान्ट व इन्स्ट्रूमेंट सेट " (एक ही कंपनी का) में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सेट (जैसे-प्लेट, स्क्रू, इन्स्ट्रूमेंट इत्यादि) एक ही निर्माता कंपनी के होने पर ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में अलग-अलग निर्माता कंपनियों के इम्लान्ट व इन्स्ट्र॔मेंट सेट (जैसे प्लेट, स्क्रू, इन्स्ट्र॔मेंट इत्यादि) स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इम्लान्ट को उपयोग में लाने हेतु इन्स्ट्र॔मेंट सेट (उपकरण) का प्रयोग किया जाता है, जिसे इम्लान्ट प्रदायकर्ता फर्म को ऑपरेशन में लगाने वाले इम्लान्ट के क्य आदेश के साथ ही निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध कराना होगा। (Cortical & Cancellous Screw) आवश्यकतानुसार दर में सम्मिलित करें। ऑपरेशन के दौरान इम्लान्ट्स को लगाने के लिए लगाने वाले आवश्यक उपकरण को निःशुल्क में प्रदाय करना होगा तथा उपकरण को चिकित्सालय तक पहुँचाना एवं उपयोग के उपरांत वापस ले जाने का कार्य संबंधित फर्म को स्वयं करना होगा।
- 07 निविदा प्रतिभागी द्वारा प्रदाय किए गए इन्स्ट्र॔मेंट सेट (इम्लान्ट लगाए जाने वाले उपकरण) सही तरीके से उपयोग करते हुए उक्त उपकरण एवं अन्य सामान में टूट-फूट होने की जवाबदारी चिकित्सालय या स्टाफ की नहीं होगी।
- 08 निविदा प्रतिभागी द्वारा रखी गई नियम व शर्तें मान्य नहीं होगी तथा अस्वीकृत कर दी जाएंगी।


Rakesh
Chandra


M. J. Bide
MD

- 09 एक मुख्य सील बंद लिफाफे के ऊपर में आर्थो इम्प्लांट्स के लिए निविदा वर्ष 2024–25 स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए तथा इस मुख्य लिफाफे के अन्दर निविदा पद्धति के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र में जिसमें दो अलग—अलग लिफाफे निम्नानुसार होने चाहिए—
01. **तकनीकी लिफाफा (Technical Bid)** :— निविदा शुल्क राशि रु. 1000/- (एक हजार रुपये) का बैंक ड्राप्ट, अमानत राशि (सुरक्षा निधि) रु. 60,000.00 (साठ हजार रुपये) का FDR एवं तकनीकी दस्तावेज।
02. **प्राईस लिफाफा (Price Bid)** :— इंप्लांट्स की दर निविदा में दिए गए प्रारूप के अनुसार कम्प्यूटर टाईप किया हुआ बिना कांट-छांट के साफ व स्पष्ट रूप से हार्ड व साप्ट दोनों कॉपी में संलग्न करना अनिवार्य है।
- 10 निर्माता कंपनी/अधिकृत विकेता फर्म को निम्नलिखित प्रमाण पत्र तकनीकी लिफाफा में संलग्न करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त कर दिया जाएगा।
- I. निविदा प्रतिभागी का नाम एवं संपूर्ण पता टेलीफोन नं. मोबाइल नं. फैक्स नंबर एवं इमेल एड्रेस स्वयं के लेटर हेड में।
- II. निविदा प्रतिभागी को निविदा के साथ अमानत राशि रु. 60,000.00 (साठ हजार रुपये) का FDR राष्ट्रीयकृत बैंक का जो JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA के पक्ष में देय होना चाहिए संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- III. **निविदा प्रपत्र मूल्य** — निविदा प्रपत्र मूल्य की राशि रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) का बैंक ड्राप्ट अथवा बैंकर्स चेक राष्ट्रीयकृत बैंक का जो JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA के पक्ष में देय हो, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।
- IV. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं कर समाशोधन प्रमाण पत्र विगत 1 वर्ष का (GST Clearance Certificate)
- V. पेन कार्ड की सत्यापित छायापति एवं विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
- VI. निर्माता कंपनी होने के स्थिति में आर्थो इम्प्लांट्स एवं निर्माता लाइसेंस का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- VII. निविदा प्रतिभागी अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर है तो फर्म के ड्रग लायसेंस का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- VIII. प्रतिष्ठान/संस्थान के व्यवसायिक उपयोग हेतु एजेंसी फर्म/प्रोपराईटर (मालिक) को संबंधित क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम द्वारा प्रदत्त गुमास्ता पंजीयन/अनापत्ति/सहमति पत्र का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- IX. निविदा प्रतिभागी निर्माता कंपनी होने के स्थिति में कंपनी का विगत 03 वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23, 2023–24) में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है। जिसका सीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
- X. निविदा प्रतिभागी निर्माता कंपनी के अधिकृत विकेता होने की स्थिति में निविदा प्रतिभागी फर्म का विगत 03 वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23, 2023–24) में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है तथा निविदा प्रतिभागी के द्वारा प्रदाय किए जाने वाले इंप्लांट के निर्माता कंपनी का विगत 03 वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23, 2023–24) में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है। जिसका सीए द्वारा जारी अलग—अलग प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
- XI. निविदा प्रतिभागी के द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट और इम्प्लांट्स के निर्माता कंपनी का फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) से जारी मैन्युफैक्चरिंग लाईसेंस (MD9) प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
- XII. निविदा प्रतिभागी के द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले इम्प्लांट्स के निर्माता कंपनी का ISO,GMP एवं CE प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- XIII. निविदा प्रतिभागी के द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले इम्प्लांट्स का “केन्द्रीय शासकीय धातु प्रमाणन बोर्ड” (Metallurgy Deptt.Certificate) प्रमाण पत्र।
- XIV. विगत 3 वर्षों में 03 या 03 से अधिक न्यूनतम 200 बिस्तर के शासकीय/गैर शासकीय चिकित्सालय में आर्थोपेडिक इंप्लांट प्रदाय करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- XV. निविदा प्रतिभागी यदि निर्माता कंपनी के अधिकृत विकेता है तो कंपनी के अधिकृत विकेता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, निर्माता कंपनी है तो आवश्यक नहीं है।
- XVI. शपथ पत्र। (दिए हुए प्रारूप में)
- 11 कय समिति निविदा प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत दस्तावजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति को मूलप्रति के मिलान/सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- 12 उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके, इस हेतु आवश्यक है कि कय से पहले प्रदाय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता देखने हेतु सामग्रियों के नमूने कय समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा।
- 13 तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) खोलने के दिन निविदा प्रतिभागी या उनके द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि (अधिकृत प्रमाण पत्र सहित) उपस्थित हो सकते हैं। तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) अभिलेखों के निरीक्षण उपरांत कय समिति द्वारा जिन निविदा प्रतिभागियों के अभिलेखों को सही पाया जाएगा, उनकी निविदा मान्य किए जाने की दशा में ही निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत आर्थो इम्प्लांट की दर (Price Bid) बीड़ को खोला जाएगा।
- 14 निविदा में इंप्लांट की कुल दर संयुक्त संचालक अस्पताल अधीक्षक कोरबा ४०८० के स्टोर/विभाग में डोर डिलीविरी के लिए होना चाहिए। (F.O.R. Basis) दर का निर्धारण दिए गए प्रारूप में ही अलग अलग अंकित करें। शासन के नियमानुसार मूल दर (Basic Rate) के अतिरिक्त देयक के साथ कर (जी.एस.टी.) ही मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा अथवा व्यय मान्य नहीं होगा। देयकों का भुगतान के समय शासन के नियमानुसार ०२ प्रतिशत टी.डी.एस एवं ०२ प्रतिशत जी.एस.टी.टी.डी.एस का कटौती किया जावेगा।
- 15 मानक गुणवत्ता जॉच हेत आर्थो इन्स्ट्रूमेंट्स, आर्थो इम्प्लांट्स जिसे प्रमाणीकरण हेतु कहीं भी भेजे जाने का व्यय प्रदायकर्ता फर्म को वहन करना होगा। यदि गुणवत्ता परीक्षण असफल हाने की दशा में प्रदायकर्ता नए बैच की आर्थो इन्स्ट्रूमेंट्स, आर्थो इम्प्लांट्स ०७ दिवस के भीतर बदल कर देगा, यदि प्रदायकर्ता ऐसा नहीं करता है तो उस फर्म को भण्डार कय नियम २००२ यथा संशोधित २०२२ में निहित प्रावधानानुसार अयोग्य (काली सूची में सम्मिलित किया जाएगा) घोषित कर दिया जाएगा। जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन मान्य नहीं होगा।
- 16 सफल निविदा प्रतिभागियों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा समाप्ति तक जमा रखा जाएगा। जिस पर किसी भी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत निविदाकार को अमानत राशि १५ दिवस के उपरांत लिखित आवेदन पत्र के बाद वापस किया जाएगा।
- 17 संयुक्त संचालक स्व. बिसाहू दास महंत चिकित्सा महाविद्यालय संबंद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.) में अविरल रूप से पूर्ति बनाए रखने के लिए कय आदेशों को एक से अधिक प्रदायकर्ताओं में विभाजित कर सकेगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
- 18 समस्त प्रदाय की जाने वाली आर्थो इन्स्ट्रूमेंट/इम्प्लांट में Batch No. Mfg. Date, Exp. Date तिखा होना अनिवार्य है। प्रदाय किए जाने वाले इम्प्लांट की अवसान तिथि २ वर्ष से कम स्वीकार नहीं होगी।
- 19 आदेशित आर्थो इम्प्लांट्स Consignments Basis की आपूर्ति स्वीकृत दर के अनुसार जावक तिथि से दो (०२) दिन के भीतर एवं आर्थो इम्प्लांट्स Bulk Purchase की आपूर्ति स्वीकृत दर के अनुसार जावक तिथि से तीन (०३) सप्ताह के भीतर प्रदाय करना होगा। अन्यथा आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इसके लिए प्रदायकर्ता को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 20 निविदा प्रतिभागी द्वारा निर्धारित समयावधि में इंप्लांट प्रदाय नहीं करने पर दूसरे योग्य फर्म जो एल-१ दर पर इंप्लांट प्रदाय करने हेतु सहमत होंगे, उक्त फर्म से कय किया जावेगा। एल-१ दर पर प्रदाय नहीं करने की स्थिति में एल-२ दर पर इंप्लांट कय किया जाएगा। जिसका अंतर राशि एल-१ फर्म के अमानत राशि से कटौती किया जावेगा। जिसके लिए निविदा प्रतिभागी को शपथ-पत्र में सहमति प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
- 21 Consignments Basis आदेश के अंतर्गत जो सामग्री का उपयोग किया जाएगा का कय आदेश शल्य किया के ०२ दिवस के अंदर जारी कर दिया जावेगा।

- 22 यदि निविदा प्रतिभागी द्वारा आदेशित सामग्रियों को दी गई अवधि में प्रदाय नहीं करता है अथवा किसी भी प्रकार का गलत सामग्री या मांग अनुसार सामग्री प्रदाय नहीं करता है तो अनुबंध किए गए अन्य फर्म से सामग्री क्य किया जाएगा। जिसके लिए भण्डार क्य नियमानुसार संबंधित फर्म को पेनाल्टी लगाया जाएगा तथा अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
- 23 अनुबंध के नियम व शर्तों का पालन नहीं करने पर निविदाकार को अगले पांच वर्षों के लिए नियमानुसार अयोग्य घोषित कर कार्यवाही की जाएगी।
- 24 कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.) उक्त निविदा को बिना किसी कारण दर्शाए, किसी एक मद अथवा संपूर्ण निविदा को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 25 छ०ग० राज्य के लघु उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन्हें सुरक्षा निधि जमा करने में छूट रहेगी, किन्तु इसके लिए निविदाकार को इस आशय का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देने पर ही छूट प्राप्त होगी साथ ही निर्माण की जाने वाली आर्थो इन्स्ट्रुमेंट, आर्थो इम्प्लांट्स, की प्रमाणित सूची एवं दर निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 26 निविदा प्रतिभागी के द्वारा बार-बार सामग्रियों समयावधि में प्रदान न करने की स्थिति निर्मित होने पर चिकित्सा अधीक्षक को निविदा/अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार रहेगा तथा ऐसे निविदा प्रतिभागियों की सुरक्षा निधि राजसात कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
- 27 ऐसे निविदा प्रतिभागी अथवा निर्माता कंपनी जिसे पूर्व में छ०ग० शासन, केन्द्र शासन अथवा किसी अन्य राज्य शासन द्वारा काली सूची में सम्मिलित किया गया है, वे पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। वह इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसी किसी भी निविदा बीड को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
- 28 क्यादेश के अनुरूप प्रदायगी, अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार, क्यादेश के अनुसार प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
- 29 निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दर किसी भी शासकीय/गैर शासकीय संस्था में प्रदाय किए गए दर से अधिक नहीं है, इस हेतु निविदा प्रतिभागी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 30 इम्प्लांट्स (Nail, Plate etc.) का पूरा समूह (Set) के अनुसार दर निर्धारित कर निविदा प्रस्तुत करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें के आपरेशन के दौरान लगाने वाला Implant specific instrument निविदा प्रतिभागी के द्वारा उपलब्ध कराया जावे।
- 31 भुगतान व्यवस्था (Payment Provisions)
- h) संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ०ग०) प्रदाय आदेश के विरुद्ध भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।
 - i) प्रदाय आदेश के विरुद्ध कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - j) भुगतान सामग्री का देयक की प्राप्ति तथा प्राप्तकर्ता के प्रपत्रों के आधार पर ही किया जाएगा।
 - k) भुगतान पूरी तरह से छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्य नियमों के अंतर्गत ही किया जाएगा।
 - l) अग्रिम राशि अथवा प्रतिभूति राशि के विरुद्ध किसी किस्म का ब्याज देय नहीं होगा।
 - m) यदि प्रदायगी टूटफूट अथवा हानि की स्थिति में प्राप्त होती है तो उसे अस्वीकार किया जाएगा।
 - n) सर्जरी में उपयोग किए गए इम्प्लांट्स का ही कार्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा। सर्जरी के पश्चात् वापस किए गए इम्प्लांट्स का नहीं।
32. निविदा नियमित तिथि एवं समय के पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से जमा किया जा सकता है। निविदा उसी कार्य दिवस में निविदा प्रतिभागी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित अवधि में खोली जाएगी। शासकीय अवकाश की स्थिति में दूसरे कार्य दिवस में निविदा खोली जाएगी।

33. क्रय समिति, स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक मामला जिला न्यायालय कोरबा के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किया जाएगा।


संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
संबद्ध चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.)


Gopal Bhawna Jyoti Rakesh

शपथ पत्र का प्रारूप

(निम्न शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर मे नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित किया जा कर जमा किया जाना अनिवार्य है)

शपथ पत्र (LETTER OF ACCEPTANCE)

मै/हम जिनकी संस्था पता
..... जो कि निविदा प्रतिभागी है, हम यह घोषणा करते हैं कि आर्थो इन्स्ट्रूमेंट्स, आर्थो इम्प्लांट्स प्रदाय करने हेतु निविदा के संदर्भ में कर रहे हैं तथा यह घोषित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। इस संदर्भ में अस्पताल प्रशासन को जब इस निविदा के संदर्भ में किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, मेरे/हमारे द्वारा प्रदाय की जावेगी।

मै/हम अस्पताल प्रशासन द्वारा बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार को स्वीकार करते हैं एवं निविदा के कड़िका कमांक 01 से 32 तक के सभी शर्तें मान्य हैं।

मै/हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा जो न्यूनतम दरे दी जाएगी, उससे कम दर पर हम निविदा अवधि तक किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन के किसी भी उपकरण/संस्था को प्रदाय नहीं करेंगे। यदि हमारे द्वारा उससे कम दर पर सामग्रियाँ प्रदाय की जा रही होंगी, तो चिकित्सा अधीक्षक को यह अधिकार होगा कि उन कम दरों पर ही सामग्रियों का भुगतान करें तथा यह मुझे/हमें स्वीकार होगा।

मै/हम स्वीकृत न्यूनतम दरों पर एक वर्ष या संस्था द्वारा निर्धारित अवधि तक आर्थो इन्स्ट्रूमेंट्स, आर्थो इम्प्लांट्स प्रदाय करेंगे।

मेरा/हमारे संस्थान को किसी भी केन्द्र/राज्य/अर्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है एवं मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का पुलिस/अपराधिक/न्यायिक प्रकरण पंजीबद्व नहीं है।

मेरे/हमारे द्वारा ऑपरेशन के दौरान इम्प्लांट्स को लगाने के लिए लगाने वाले आवश्यक उपकरण (इंस्ट्रूमेंट सेट) इंप्लांट के साथ निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा तथा उपकरण को चिकित्सालय तक समय सीमा में पहुँचाना एवं उपयोग के उपरांत वापस ले जाने का कार्य मेरे द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाएगा।

मेरे/हमारे द्वारा निर्धारित समय के भीतर एल-1 दर पर इंप्लांट प्रदाय नहीं करने की स्थिति में अधीक्षक कार्यालय द्वारा एल-2 दर पर क्य किए जाने से अंतर राशि की कटौती अमानत राशि से किए जाने हेतु सहमति प्रदान किया जाता है।

धन्यवाद।

निविदा प्रतिभागी

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम


दिनांक
स्थान :-

The image shows four handwritten signatures or sets of initials in blue ink. From left to right: 1) A signature starting with 'R' and ending with 'S'. 2) A signature starting with 'B' and ending with 'M'. 3) A signature starting with 'A' and ending with 'S'. 4) A signature starting with 'D' and ending with 'K'.

तकनीकी लिफाफा (Technical Bid)

LIST OF DOCUMENTS

S.N O.	DOCUMENT	Page No.
1.	निविदा प्रतिभागी का नाम एवं संपूर्ण पता टेलीफोन नं. मोबाईल नं. फैक्स नंबर एवं ईमेल एड्रेस स्वयं के लेटर हेड में।	
2.	निविदा प्रतिभागी को निविदा के साथ अमानत राशि रु. 60,000.00 (साठ हजार रुपये) का FDR राष्ट्रीयकृत बैंक का जो JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA के पक्ष में देय होगा।	
3.	निविदा प्रपत्र मूल्य की राशि रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) का बैंक ड्राप्ट अथवा बैंकर्स चेक राष्ट्रीयकृत बैंक का जो JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA के पक्ष में देय हो, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।	
4.	जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं कर समाशोधन प्रमाण पत्र विगत 1 वर्ष का (GST Clearance Certificate)	
5	पेन कार्ड की सत्यापित छायापति एवं विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र (ITR) ।	
6	निविदा प्रतिभागी निर्माता कंपनी होने के स्थिति में आर्थी इम्प्लांट्स निर्माता लाइसेंस का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।	
7	निविदा प्रतिभागी अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर होने के स्थिति में फर्म के ड्रग लायसेंस का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।	
8	निविदा प्रतिभागी के द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले इस्ट्रॉमेंट और इम्प्लांट्स के निर्माता कंपनी का फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) से जारी मैन्युफैक्चरिंग लाईसेंस (MD9) प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।	
9	प्रतिष्ठान/संस्थान के व्यवसायिक उपयोग हेतु एजेंसी फर्म/प्रोपराईटर (मालिक) को संबंधित क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम द्वारा प्रदत्त गुमास्ता पंजीयन/अनापति/सहमति पत्र का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।	
10	निविदा प्रतिभागी निर्माता कंपनी होने के स्थिति में कंपनी का विगत 03 वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23, 2023–24) में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है। जिसका सीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।	
11	निविदा प्रतिभागी निर्माता कंपनी के अधिकृत विक्रेता होने की स्थिति में निविदा प्रतिभागी फर्म का विगत 03 वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23, 2023–24) में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है तथा निविदा प्रतिभागी के द्वारा प्रदाय किए जाने वाले इंप्लांट के निर्माता कंपनी का विगत 03 वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23, 2023–24) में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है। जिसका सीए द्वारा जारी अलग-अलग प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।	
12	निविदा प्रतिभागी के द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले इम्प्लांट्स के निर्माता कंपनी का ISO, GMP एवं CE प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	



13	निविदा प्रतिभागी के द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले इम्प्लांट्स का "केन्द्रीय शासकीय धातु प्रमाणन बोर्ड" (Metallurgy Deptt.Certificate) प्रमाण पत्र।	
14	विगत 3 वर्षों में 03 या 03 से अधिक न्यूनतम 200 बिस्तर के शासकीय चिकित्सालय या गैर शासकीय चिकित्सालय में आर्थोपेडिक इंप्लांट प्रदाय करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
15	निविदा प्रतिभागी यदि निर्माता कंपनी के अधिकृत विकेता है तो कंपनी के अधिकृत विकेता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, निर्माता कंपनी है तो आवश्यक नहीं है।	
16	शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित (दिए हुए प्रारूप में)	

निविदा दर लिफाफा (Price Bid)

(निम्न प्रारूप अनुसार कम्प्यूटराइज �Excel Sheet में टाईप कराकर निविदा दर अंकित करें)

प्रति,

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
स्व. बिसाहू दास मंहत स्मृति शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालय संबंद्ध चिकित्सालय
कोरबा (छोगो)

महोदय,

समाचार पत्र में प्रकाशित खुली निविदा कमांक दिनांक के संदर्भ में मैं/हम विहित प्रायः मैं मेरी/ हमारी निविदा निम्नलिखित आर्थो इन्स्ट्रूमेंट्स, आर्थो इम्लांट्स के लिए उसमें वर्णित निबंधनों एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबंद्ध चिकित्सालय कोरबा (छोगो) द्वारा अभिप्राप्त निविदा शर्तों पर प्रस्तुत करता हूँ/ करते हैं।

S.No.	Name of Items	Unit/	Company/Brand Name	Authorization Certificate (Yes/No)	Basic Rate (Without GST)	GST %	GST Amount	Rate With GST
01								
02								
03								
04								
05								
06								

1. स्थान:

2. दिनांक

हस्ताक्षर निविदा प्रतिभागी

नाम:—

पता :—

सील

गोप्य
Bm
JUL 2018
A

IMPLANT LIST

S.NO.	Name of Items with Specification	Unit	Company/Brand Name	Authorization Certificate (Yes/No)	Basic Rate (Without GST)	GST%	GST Amount	Rate With GST	Remark
1	DHS DYNAMIC PLATE (SCREW,PLATE,LAG SCREW)(2-4 HOLES)	each							
2	DHS DYNAMIC PLATE (SCREW,PLATE,LAG SCREW)(5-8 HOLES)	each							
3	DHS DYNAMIC PLATE (SCREW,PLATE,LAG SCREW)(9-12 HOLES OR BIGGER)	each							
4	DHS DYNAMIC Double Angle With PLATE,LAG SCREW)(2-5 HOLES OR BIGGER)	each							
5	Pediatric DHS With PLATE,LAG SCREW)(2-5 HOLES OR BIGGER)	each							
6	Moore's Pin All Size	each							
7	(DCS)DYNAMIC COMPRESSION SYSTEM(SCREW,PLATE,LAG SCREW)(3-5 HOLES)	each							
8	(DCS)DYNAMIC COMPRESSION SYSTEM(SCREW,PLATE,LAG SCREW)(6-9 HOLES)	each							
9	(DCP)DYNAMIC COMPRESSION SYSTEM(SCREW,PLATE,LAG SCREW)(10-13 HOLES OR BIGGER)	each							
10	FEMUR INTERLOCK NAIL WITH BOLT 1X4 (Sharma Surgical Set)	each							
11	TIBIA INTERLOCK NAIL WITH BOLT 1X4 (Sharma Surgical Set)	each							
12	EXPERT TIBIA NAIL WITH BOLT 1X4 (Sharma Surgical Set)	each							
13	HUMERUS INTERLOCK NAIL WITH BOLT 1X4 (Sharma Surgical Set)	each							
14	(DCP)DYNAMIC COMPRESSION PLATE 4.5MM NARROW WITH SCREW(6-8 HOLES)	each							
15	(DCP)DYNAMIC COMPRESSION PLATE 4.5MM NARROW WITH SCREW(9-12 HOLES OR BIGGER)	each							
16	(DCP)DYNAMIC COMPRESSION PLATE 4.5MM BROAD WITH SCREW(6-8 HOLES)	each							
17	(DCP)DYNAMIC COMPRESSION PLATE 4.5MM BROAD WITH SCREW(9-12 HOLES OR BIGGER)	each							
18	(DCP)DYNAMIC COMPRESSION PLATE 3.5MM SMALL WITH SCREW(6-8 HOLES)	each							
19	(DCP)DYNAMIC COMPRESSION PLATE 3.5MM SMALL WITH SCREW(9-12 HOLES)	each							
20	1/3 TUBULAR PLATE 3.5MM WITH SCREW(6-8 HOLES)NON LOCKING	each							
21	1/3 TUBULAR PLATE 3.5MM WITH SCREW(9-12 HOLES OR BIGGER)NON LOCKING	each							
22	(LOCKING)1/3 TUBULAR PLATE 3.5MM WITH SCREW(6-8 HOLES)	each							
23	(LOCKING)1/3 TUBULAR PLATE 3.5MM WITH SCREW(9-12 HOLES OR BIGGER)	each							
24	3.5MM RECONSTRUCTION PLATE WITH SCREW (6-8 HOLES)NON LOCKING	each							
25	3.5MM RECONSTRUCTION PLATE WITH SCREW (9-12 HOLES OR BIGGER)NON LOCKING	each							
26	(LOCKING)3.5MM RECONSTRUCTION PLATE WITH SCREW (6-8 HOLES)	each							
27	(LOCKING)3.5MM RECONSTRUCTION PLATE WITH SCREW (9-12 HOLES OR BIGGER)	each							
28	(LOCKING)4.5MM RECONSTRUCTION PLATE WITH SCREW (6-8 HOLES)	each							
29	(LOCKING)4.5MM RECONSTRUCTION PLATE WITH SCREW (6-8 HOLES)	each							
30	PROXIMAL TIBIA MEDIAL BUTTRESS PLATE (T PLATE) WITH SCREW (Cancelloous + Cortical) (NON LOCKING)(3-5 HOLES)	each							
31	PROXIMAL TIBIA MEDIAL BUTTRESS PLATE (T PLATE) WITH SCREW (Cancelloous + Cortical) (NON LOCKING)(6-9 HOLES)	each							
32	PROXIMAL TIBIA MEDIAL BUTTRESS PLATE (T PLATE) WITH SCREW (Cancelloous + Cortical)(NON LOCKING) (10-12 HOLES OR BIGGER)	each							
33	PROXIMAL TIBIA MEDIAL BUTTRESS PLATE (T PLATE) WITH SCREW (Locking Cancelloous + Cortical)(LOCKING) (3-5 HOLES)	each							
34	PROXIMAL TIBIA MEDIAL BUTTRESS PLATE (T PLATE) WITH SCREW (Locking Cancelloous + Cortical)(LOCKING) (6-9 HOLES)	each							
35	PROXIMAL TIBIA MEDIAL BUTTRESS PLATE (T PLATE) WITH SCREW (Locking Cancelloous + Cortical)(LOCKING) (10-12 HOLES OR BIGGER)	each							
36	PROXIMAL TIBIA LATERAL BUTTRESS PLATE WITH SCREW (Cancelloous + Cortical)(NON LOCKING)(3-5 HOLES)	each							
37	PROXIMAL TIBIA LATERAL BUTTRESS PLATE WITH SCREW (Cancelloous + Cortical)(NON LOCKING)(6-9 HOLES)	each							
38	PROXIMAL TIBIA LATERAL BUTTRESS PLATE WITH SCREW (Cancelloous + Cortical)(NON LOCKING)(10-12 HOLES)	each							
39	PROXIMAL TIBIA LATERAL BUTTRESS PLATE WITH SCREW (Locking Cancelloous + Cortical)(LOCKING)(3-5 HOLES)	each							
40	PROXIMAL TIBIA LATERAL BUTTRESS PLATE WITH SCREW (Locking Cancelloous + Cortical)(LOCKING)(6-9 HOLES)	each							
41	PROXIMAL TIBIA LATERAL BUTTRESS PLATE WITH SCREW (Locking Cancellous + Cortical)(LOCKING)(10-12 HOLES)	each							
42	COBRA PLATE WITH SCREW (Cancellous + Cortical) (NON LOCKING)(3-5 HOLES)	each							
43	COBRA PLATE WITH SCREW (Cancellous + Cortical) (NON LOCKING)(6-9 HOLES)	each							
44	COBRA PLATE WITH SCREW (Cancellous + Cortical) (NON LOCKING)(10-12 HOLES)	each							
45	DISTAL FEMUR PLATE WITH SCREW (Locking Cancellous + Cortical)(LOCKING)(3-5 HOLES)	each							
46	DISTAL FEMUR PLATE WITH SCREW (Locking Cancellous + Cortical)(LOCKING)(6-9 HOLES)	each							
47	DISTAL FEMUR PLATE WITH SCREW (Locking Cancellous + Cortical)(LOCKING)(10-12 HOLES)	each							
48	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE (TROCHANTRIC PLATE) WITH SCREW (Locking Cancellous + Cortical)(3-5 HOLES)	each							
49	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE (TROCHANTRIC PLATE) WITH SCREW (Locking Cancellous + Cortical)(6-9 HOLES)	each							
50	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE (TROCHANTRIC PLATE) WITH SCREW (Locking Cancellous + Cortical-Sleeve)(10-12 HOLES OR BIGGER)	each							
51	DISTAL TIBIA LOCKING (METAPHYSEAL) PLATE WITH SCREW (Locking Cancellous + Cortical)(3-5 HOLES)	each							

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

SOLD

COST

SOLD

COST

52	DISTAL TIBIA LOCKING (METAPHYSICAL PLATE WITH SCREW (locking Cancellous + Cortical) (6-9 HOLE)	each
53	DISTAL TIBIA LOCKING (METAPHYSICAL PLATE WITH SCREW (locking Cancellous + Cortical+)(10-12 HOLE OR BIGGER)	each
54	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA LOCKING PLATE WITH SCREW (locking Cancellous + Cortical)(7-9 HOLE)	each
55	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA LOCKING PLATE WITH SCREW (locking Cancellous + Cortical)(10-12 HOLE)	each
56	ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA LOCKING PLATE WITH SCREW (locking Cancellous + Cortical)(13-16 HOLE)	each
57	DISTAL FIBULA LOCKING (CONTOUR) PLATE WITH SCREW (3-5 HOLE)	each
58	DISTAL FIBULA LOCKING (CONTOUR) PLATE WITH SCREW (6-9 HOLE OR BIGGER)	each
59	DISTAL FIBULA LOCKING (CONTOUR) PLATE WITH SCREW (10-12 HOLE OR BIGGER)	each
60	PROXIMAL HUMERUS LOCKING (PHILLOS) PLATE WITH SCREW (SLEEVE) (3-5 HOLE)	each
61	PROXIMAL HUMERUS LOCKING (PHILLOS) PLATE WITH SCREW (6-9 HOLE)	each
62	PROXIMAL HUMERUS LOCKING (PHILLOS) PLATE WITH SCREW (10-12 HOLE OR BIGGER)	each
63	DISTAL HUMERUS (CONTOURED) MEDIAL LOCKING PLATE WITH SCREW (3-5 HOLE)	each
64	DISTAL HUMERUS (CONTOURED) ANATOMICAL PLATE MEDIAL LOCKING PLATE WITH SCREW (10-12 HOLE OR BIGGER)	each
65	DISTAL HUMERUS (CONTOURED) ANATOMICAL PLATE LATERAL LOCKING PLATE WITH SCREW (3-5 HOLE)	each
66	DISTAL HUMERUS (CONTOURED) ANATOMICAL PLATE LATERAL LOCKING PLATE WITH SCREW (6-9 HOLE)	each
67	DISTAL HUMERUS (CONTOURED) ANATOMICAL PLATE LATERAL LOCKING PLATE WITH SCREW (10-12 HOLE OR BIGGER)	each
68	EXTRAARTICULAR DISTAL HUMERUS LOCKING PLATE WITH SCREW (6-9 HOLE)	each
69	EXTRAARTICULAR DISTAL HUMERUS LOCKING PLATE WITH SCREW (4-7 HOLE)	each
70	EXTRAARTICULAR DISTAL HUMERUS LOCKING PLATE WITH SCREW (7-10 HOLE)	each
71	OLECRANON HOOK PLATE WITH SCREW (3-5 HOLE)	each
72	OLECRANON HOOK PLATE WITH SCREW (6-7 HOLE)	each
73	DISTAL RADIUS LOCKING PLATE WITH SCREW (1-3 HOLE)	each
74	DISTAL RADIUS LOCKING PLATE WITH SCREW (4-6 HOLE)	each
75	RADIAL HEAD FIXATION PLATE WITH SCREW (ALL SIZE)	each
76	RADIAL HEAD PROSTHESIS SILICON ALL SIZE	each
77	MINI PLATE FOR METACARPEL & CARPEL BONE WITH SCREW (2-4 HOLES OR BIGGER)	each
78	K-NAIL (DIFFERENT LENGTH & SIZE)	each
79	ENDERS NAIL (DIFFERENT LENGTH & SIZE)	each
80	SQUARE NAIL FOR RADIUS (DIFFERENT LENGTH & SIZE)	each
81	SQUARE NAIL FOR ULNA (DIFFERENT LENGTH & SIZE)	each
82	TITANIUM ELASTIC NAIL (DIFFERENT LENGTH & SIZE)	each
83	PROXIMAL FEMUR NAIL WITH BOLT (PFN) 135 Angle 9,10,11 (SHORT 25MM) 6MM Bolt & 8 MM Bolt with 4.9 mm distal bolt (Different Length)	(Different
84	PROXIMAL FEMUR NAIL WITH BOLT (LONG 36-44 MM) (PFN) 135 Angle 9,10,11 6MM Bolt & 8 MM Bolt with 4.9 mm distal bolt (Different Length)	(Different
85	SUPRACONDYLAR FEMUR NAIL (DFN) ALL SIZES WITH BOLT Full Set will provided by concerning Firm	each
86	ANKLE ARTHRODESIS NAIL ALL SIZES WITH BOLT WITH FULL SET	each
87	6.5MM CC SCREW WITH WASHER (SS) With Different Length	each
88	6.5MM CC SCREW WITH WASHER (TT) With Different Length	each
89	4.0MM CC SCREW WITH WASHER (SS) With Different Length	each
90	4.0MM CC SCREW WITH WASHER (TT) With Different Length	each
91	3.5MM CORTICAL SCREW (SS) With Different Length	each
92	4.5MM CORTICAL SCREW (SS) With Different Length	each
93	HERBERT SCREW ALL SIZES (SS) With Different Length	each
94	HERBERT SCREW ALL SIZES (TT) With Different Length	each
95	6.5 MM CANCELLOUS SCREW WITH WASHER With Different Length	each
96	4.0 MM CANCELLOUS SCREW WITH WASHER With Different Length	each
97	MALEOULAR SCREW WITH WASHER With Different Length	each
98	CALCANIUM PLATE WITH SCREW (ALL SIZES)	each
99	JESS EXTERNAL FIXATOR WITH 4 SCHANZ PIN, 4 CLAMP, 1 ROD	each
100	MINI JESS FIXATOR WITH 4 SCHANZ PIN AND DISTRACTOR UNIT FOR FINGER AND TOES WITH CLAMP ALFA & BITA EXTERNAL FIXATOR WITH 6 SCHANZ / STAINMAN PIN / DENHAM PIN WITH 6 CLAMS, WITH 2 TUBULAR RODS DIFFERENT SIZES , CONNECTING	each
101	CLAMP 1	each
102	CERVICAL PLATE WITH SCREW	each
103	CERVICAL PRESTIGE CAGE WITH SCREW	each
104	TILE CAGE	each
105	PUIF CAGE	each
106	BULLET CAGE	each

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

8
Chm
MAY 20

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

163	Consumable SET WITH HIP U DRAPE, OPSITE, CLINIC DRAPE, SURGICAL DISPOSABLE GOWN (Surgicare), G Dress, STOCKINETTE UP TO THIGH Length, Pulse Lavage Set DISPOSABLE	each					
164	Hybrid THR Set Including Cement I/M Plug + Cement Gun	each					
165	Consumable SET WITH HIP U DRAPE, OPSITE, CLINIC DRAPE, BETADINE SCRUB 500ML, SURGICAL DISPOSABLE GOWN (Surgicare) G Dress, STOCKINETTE UP TO THIGH Pulse Lavage Set DISPOSABLE	each					
166	Non Cemented THR Set Metal on Poly	each					
167	Consumable SET WITH HIP U DRAPE, OPSITE, CLINIC DRAPE, BETADINE SCRUB 500ML, SURGICAL DISPOSABLE GOWN (5 Set) G Dress, STOCKINETTE UP TO THIGH Pulse Lavage Set DISPOSABLE	each					
168	Non Cemented THR Set Ceramic on Poly	each					
169	Consumable SET WITH HIP U DRAPE, OPSITE, CLINIC DRAPE, BETADINE SCRUB 500ML, SURGICAL DISPOSABLE GOWN (5 Set) G Dress, STOCKINETTE UP TO THIGH Pulse Lavage Set DISPOSABLE	each					
170	TKR Set Including Cement	each					
171	Consumable SET WITH Knee- O DRAPE, OPSITE, CLINIC DRAPE, BETADINE SCRUB, SURGICAL DISPOSABLE GOWN (5 Set) G Dress, STOCKINETTE UP TO THIGH Pulse Lavage Set DISPOSABLE	each					
172	TKR System (Mono Block) Including Cement	each					
173	Consumable SET WITH Knee- O DRAPE, OPSITE, CLINIC DRAPE, BETADINE SCRUB, SURGICAL DISPOSABLE GOWN (5 Set) G Dress, STOCKINETTE UP TO THIGH Pulse Lavage Set DISPOSABLE	each					
174	Bohler's Braun Splint	each					
175	Thomus Splint Different Sizes	each					
176	Kramer Wire	each					
177	G- BONE	each					
178	G - GRAFT	each					
179	C - Arm Disposable Drape (Wrap)	each					
180	Reduction Forceps Small	each					
181	Reduction Forceps Large	each					
182	Wire Passer	each					
183	Wire Tightener	each					
Battery Operated Drill Machine AUTOCLAVABLE IN ORTHOPEDIC							
Specification:							
Battery Power System is versatile function and can be used in small bone and large bone surgeries.							
The Hand piece is Modular Type.							
Single Trigger Hand pieces							
It can perform both Drilling and Reaming Functions							
Selection of Drilling and Reaming can be done with different attachments							
The Speed and Torque changes depending upon the attachments attached to the Hand piece during surgery							
It has Forward , Reverse and Safe Mode , this is important while changing accessories							
Drilling Speed : 0 - 1500 rpm							
Intramedullary Reaming Speed : 0 - 360rpm (3:1)							
184	Variable Speed on Hand piece	each					
Fully Cannulated Hand piece. Cannulation of 4mm							
Autoclavable Hand piece							
Attachment Options							
Drill Chuck and Key Attachment(1100 rpm)							
AO Reamer Attachment (360 rpm)							
K wire Attachment Big Attachment (1.8mm to 3.5mm)							
Power : 100 (W)							
Drilling Torque : 2.0Nm							
Intramedullary Reaming Torque : 6.0Nm							
Weight of Hand piece : 700 Gms							
Concealed Motor to prevent from damage from irrigation fluid during arthroscopy surgeries							
Battery Operated Oscillating Saw AUTOCLAVABLE IN ORTHOPEDIC							
Dedicated Hand piece							
It is autoclavable							
Weight of Hand piece is 800 gms							
Speed is 0-16000 rpm							
It has a rotatable Head at every 30 Degrees, (8 Station Rotation)							
Rotatable Blade Locking Mechanism which is at the bottom end of blade shelf , this ensures							

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

237	Daubenspeck Angled 200 mm x 3.6 mm	each			
238	Daubenspeck Angled 200 mm x 4.4 mm	each			
239	Daubenspeck	each			
240	Daubenspeck 250 mm x 3.6 mm Straight	each			
241	Daubenspeck 250 mm x 4.4 mm Straight	each			
242	Daubenspeck 250 mm x 5.2 mm Straight	each			
243	Daubenspeck 250 mm x 6.8 mm Straight	each			
244	Daubenspeck 250 mm x 3.6 mm 45°	each			
245	Daubenspeck 250 mm x 4.4 mm 45°	each			
246	Daubenspeck 250 mm x 5.2 mm 45°	each			
247	Daubenspeck 250 mm x 6.8 mm 45°	each			
248	Bustie Reverse 250 mm x 5 mm	each			
249	Simon 235 mm x 3.6 mm	each			
250	Simon 235 mm x 4.4 mm	each			
251	Simon 235 mm x 5.2 mm	each			
252	Simon 240 mm x 6.8 mm	each			
253	Simon 240 mm x 8.5 mm	each			
254	Simon 240 mm x 10.0 mm	each			
255	Simon 240 mm x 11.5 mm	each			
256	Simon 240 mm x 13.0 mm	each			
257	Simon 240 mm x 14.5 mm	each			
258	Casper Fibre handle 220 mm x 3.6 mm Straight	each			
259	Casper Fibre handle 220 mm x 4.4 mm Straight	each			
260	Casper Fibre handle 220 mm x 5.2 mm Straight	each			
261	Casper Fibre handle 220 mm x 6.8 mm Curved	each			
262	Casper Fibre handle 220 mm x 8.4 mm Curved	each			
263	Casper Fibre Handle 220 mm x 5.2 mm Curved	each			
264	Casper Fibre Handle 220 mm x 4 mm Toothed	each			
265	Casper Fibre Handle 220 mm x 5 mm Toothed	each			
266	Casper Fibre handle 220 mm x 6 mm Toothed	each			
BONE CUTTING FORCEPS					
267	Liston Bone Cutting Forceps 185mm Straight	each			
268	Liston Bone Cutter 220 mm Straight	each			
269	Liston Bone Cutter 220 mm Curved	each			
270	Liston Bone Cutter 200 mm Curved	each			
271	Liston Bone Cutter 220 mm Curved	each			
272	Boehler Bone Cutting Forceps Straight 145mm	each			
273	Ruskin Liston Bone Cutter D/A Straight 190 mm	each			
274	Liston Bone cutter Dbl action curved flat 240 mm	each			
275	Bone Cutting Forceps Straight D/A 220mm	each			
276	Liston Bone cutter Dbl action straight flat 280 mm	each			
277	Liston Bone cutter Dbl action Curved Flat 280 mm	each			
278	Liston Bone cutter Dbl action Angled 265 mm	each			
279	Liston Key Horsley Double action Bend 255 mm	each			
BONE FILE					
280	Maltz Down Stroke 180 mm x 9 mm	each			
281	Aufrecht Up stroke 220 mm x 9 mm	each			
282	Aufrecht Down stroke 220 mm x 9 mm	each			
283	Miller 4.3 mm x 6 mm x 180mm	each			
284	File 220 mm x 20 mm One side file one rasp	each			
285	Bone file 295 mm x 20 mm	each			
286	File 240 mm x 13 mm curved	each			
287	BONE HOLDING CLAMPS	each			
Lowman Bone Holding Clamp 170 mm					

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

The
Instrument:
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

339	Leur Friedmann Rongeur Cvd 145 mm	each
340	LUER Bone Rongeurs Cvd 155mm	each
341	Jansen Rongeur 175 mm straight	each
342	Jansen Bone Rongeurs Curved 175mm	each
343	Bane Heartmann 175 mm curved	each
344	Jansen Rongeur 175 mm bend curved	each
345	Leur Rongeur 180 mm Blunt	each
346	Ruskin Bone Rongeurs Straight D/A 190mm	each
347	Ruskin Rongeur Double action 190 mm curved	each
348	Ruskin Bone Rongeurs Straight D/A 220mm	each
349	Ruskin Bone Rongeurs Straight D/A 240mm	each
350	Roettgen Ruskin Rongeur Double action 240 mm curved	each
351	Echlin Rongeur Double action angled pointed 230 mm	each
352	Echlin Bone Rongeurs 230mm	each
353	Stille bone rongeur 235mm	each
354	[leksell]: Stille Bone Rongeurs	each
355	Stille Ruskin Rongeur Dbl action Blunt angled 240mm	each
356	Leur Stille Rongeur Dbl action Blunt Straight 225mm	each
357	Leur Stille Rongeur Dbl action Blunt Curved 225 mm	each
BULLDOG CLAMPS		
358	Bulldog Clamp 55° Angled 49x10mm	each
359	Bulldog Clamp Large	each
360	De-Bakey Atra Ring Handle Bulldog cl. str 53x130mm	each
361	De-Bakey Atra Ring Handle Bulldog Cl. Cvd 53x125mm	each
362	De-Bakey Atra Ring Handle Bulldog cl. Ang 53x125mm	each
CARTILAGE FORCEPS		
363	Bircher Meniscus and Cartilage Forceps Str 200mm	each
364	Weller cartilage forcep Curved 200 mm	each
365	Bircher-Ganske Cartilage Forceps 200mm	each
366	Martin Cartilage forcep Straight 205 mm	each
CERCLAGE		
367	Demel Wire guide 275 mm Vertical	each
368	Demel Wire guide 275 mm Horz	each
CHISELS		
369	Bone Chisels 5 x 205mm	each
370	Stille Chisels 10x205mm	each
371	Stille Chisel 205 mm x 10 mm	each
372	Stille Chisel 205 mm x 12 mm	each
373	Stille Chisels 15x205mm	each
374	Stille Chisel 205 mm x 15 mm	each
375	Stille Chisel 205 mm x 20 mm	each
376	Stille Chisel 205 mm x 25 mm	each
377	Standard Chisel 245 mm x 20 mm Fibre handle	each
378	Standard Chisel curved 265 mm x 16 mm Fibre handle	each
ELEVATORS		
379	Buck Granicko Lever 2 x 7.5 mm	each
380	Hohmann 160 mm 2 x 6 mm	each
381	Hohmann 160 mm 2 x 8 mm	each
382	L Lane Bone Lever Serrated 255mm	each
383	Lange Hohmann 250 mm x 24 mm	each
384	LANGE HOHMANN Modif Bone lever 33mm 280 mm	each
385	Wagner bone lever 220mm x 17mm	each

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

386	Bone levers 10 x 220mm	each
387	Bone Lever 17x240mm	each
388	Hohmann Bone Lever 240mm x 17mm	each
389	Hohmann Adlunger Lever 270 mm x 24 mm	each
390	Tager Lever 175 mm x 12 mm	each
FLAT NOSED PLIERS		
391	Pliers with Serrated jaws 140mm	each
392	Pliers with Serrated Jaws 170mm	each
393	Pliers with Serrated Jaws 190mm	each
394	Plier 2 in 1	each
395	Round Pliers	each
FORCEPS		
396	Micro Forceps 0.15 x 110mm	each
397	HUNTT Tumor and Vessel Forceps 200mm	each
398	Adson Forceps Plain Serrated 120mm	each
399	Adson Plain Forceps 6"	each
400	Dissecting Forceps 145mm	each
401	Standard Dissecting forceps 160mm	each
402	Standard Dissecting forceps 200mm	each
403	De-Bakey Vascular Forceps 150mm	each
404	De-Bakey Vascular Forceps 200mm	each
405	De-Bakey Forceps 2x1 50mm	each
406	De-Bakey Forceps 2x2 200mm	each
407	Elsching Delicate Tissue Forceps 110mm	each
408	Adson Tissue Forcep 120mm	each
409	Adson Forceps 1x2 Teeth Without Serr 120mm	each
410	Standard Tissue Forcep 140mm	each
411	Standard Tissue Forcep 155mm	each
412	Standard Tissue Forcep 200mm	each
413	Tissue Forceps 3 x 4 Teeth 1145mm	each
414	Tissue Forceps 3 x 4 Teeth 160mm	each
415	Tissue Forceps 3 x 4 Teeth 200mm	each
416	Gross Sponge Holding Forceps with Ratchet St 200mm	each
417	Gross Sponge Holding Forceps with Ratchet Curved 200mm	each
418	Mater Sponge Holding without Ratchet Cvd 265mm	each
419	Mater Sponge Holding Forceps with ratchet 265mm St	each
420	Mater Sponge Holding Forceps with ratchet 265mm Curved	each
421	Foerster Ballenger Sponge Holding Serr Str 200mm	each
422	Foerster Ballenger Sponge Holding Holding Serr Str 245mm	each
423	Baby Mosquito Delicate Haemostatic Forcep Straight 100mm	each
424	Baby Mosquito Delicate Haemostatic Forcep Curved 100mm	each
425	Baby Mosquito Delicate Haemo Forcep Toothed Cu 100mm	each
426	Baby Mosquito Delicate Haemo Forcep Toothed Cu 100mm	each
427	Halsted-Mosquito Haemostatic Forceps Straight 125mm	each
428	Halsted-Mosquito Haemostatic Forceps Curved 125mm	each
429	Kelly Haemostatic Forceps Str 140mm	each
430	Kelly Hae. Artery Forceps Curved 140mm	each
431	Baby-Critie (Pean) Hae. Forceps Cvd 140mm	each
432	Critie Delicate Haemostatic Forceps Straight 130mm	each
433	Critie Delicate Haemostatic Forceps Curved 130mm	each
434	Pean Slender Type Hae. Artery Forceps Str 130mm	each
435	Pean Slender Type Hae. Forceps Str 140mm	each
436	Pean Slender Type Hae. Forceps Cu. 140mm	each
437	Spencer-Wells Hae. Artery Forceps 130mm Straight	each
438	Spencer-Wells Hae. Artery Forceps 175mm Straight	each

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

✓ Mr. Doss
✓ 26

439	Rochester-Pean Hae. Forcep Str. 160mm		each	
440	Rochester-Pean Hae. Forcep Str. 200mm		each	
441	Rochester-Pean Hae. Forcep Cu. 160mm		each	
442	Rochester-Pean Haemostatic Artery Forcep 200mm		each	
443	Rochester-Pean Hae. Artery Forceps Cvd. 225mm		each	
444	Kocher Hae. Artery Forceps 140mm Straight		each	
445	Kocher-Ochsner Hae. Forceps Straight 160mm		each	
446	Kocher Artery Forceps Tooth St 200mm		each	
447	Kocher Artery Forceps Tooth St 260mm		each	
448	Kocher-Ochsner Hae. Forceps Curved 160mm		each	
449	Kocher Artery Forceps Tooth Curved 200mm		each	
450	Kocher Artery Forceps Tooth Curved 260mm		each	
451	Overholt Dissecting & Ligation Forceps Curved 215mm		each	
452	Rumel Dissecting & Ligation Forceps Curved 240mm		each	
453	Allis Tissue grasping forceps 4 x 5 teeth 155mm		each	
454	Allis Tissue Forceps 4 x 5 Teeth 190mm		each	
455	Allis Tissue grasping forceps 5 x 6 teeth 255mm		each	
456	Babcock Intestinal Grasping Forceps 160mm		each	
457	Babcocks Intestine grasping forceps 170mm		each	
458	Babcocks Intestine grasping forceps 215mm		each	
459	Mosquito Forceps 125mm Straight		each	
460	Mosquito Forceps 125mm Curved		each	
461	Mosquito Forceps 165mm Straight		each	
462	Mosquito Forceps 165mm Curved		each	
463	De-Bakey Bambridge Haein. Forceps Str. 40x155mm		each	
464	Reposition Forceps Standard 135 mm		each	
465	Reill Reposition Forceps 170mm		each	
466	Reposition Forceps Standard 205 mm		each	
467	Piattella Forceps 185 mm		each	
468	Standard Forcep with ratchet 140 mm		each	
469	Standard Forcep with ratchet 170 mm		each	
470	Standard Forceps Standard 205 mm		each	
471	Lagenback forceps two point 11 mm x 205 mm		each	
472	Fergusson Forceps four point 12 mm x 205 mm		each	
473	Farabeuf Lambotte ratchet two point 11 mm x 255 mm		each	
474	Hey groves Bone holding Forcep 305 mm x 8.5 mm		each	
475	Self Centering Forceps With thread Fixation 3mm x 145		each	
476	Standard self centering forces 7 mm x 190 mm		each	
477	Standard self centering forces 11 mm x 260 mm		each	
478	Standard self centering forces 11.5 mm x 260 mm		each	
479	Cushing Forces with T.C Inserts 180mm		each	
480	Oehler Forces TC Tooothed 80mm		each	
481	Stetilising Forceps Curved 25cm without Ratchet		each	
GOUGES				
482	Alexander Gouge 170mm x 5mm		each	
483	Alexander Gouge 170mm x 9mm		each	
484	Stille Gouge 205 mm x 10 mm		each	
485	Stille Gouge 205 mm x 12 mm		each	
486	Stille Gouge 205 mm x 15 mm		each	
487	Stille Gouge 205 mm x 20 mm		each	
488	Stille Gouge 205 mm x 25 mm		each	
489	Walter Gouge 205 mm x 10 mm angled		each	
490	Walter Gouge 205 mm x 15 mm angled		each	
491	Gouge for broken screws 9 mm x 220 mm		each	
492	Lever gouge angled Fibre handle 275 mm x 10 mm		each	
493	Lever gouge angled Fibre handle 275 mm x 15 mm		each	

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

KERRISON PUNCHES		
494	KHAJEK-KOFLER Punch downwards 140x 3.5mm	each
495	Kerrison Punch Jacobs 130° Upwards 180x1mm	each
496	Kerrison Punch Jacobs 130° Upwards 180x 2 mm	each
497	Kerrison Punch Jacobs 130° Upwards 180x 3 mm	each
498	Kerrison Punch Jacobs 130° Upwards 180x4 mm	each
499	Kerrison Punch Jacobs 130° Upwards 180x5 mm	each
500	KERRISON-JACOBY Punch 90° Upwards 180x1 mm	each
501	Kerrison Punch Downward 2x 180mm	each
502	Kerrison Punch Jacobs 90° Upwards 180x2 mm	each
503	Kerrison Punch Downward 3x 180mm	each
504	Kerrison Punch Jacobs 90° Upwards 180x3 mm	each
505	Kerrison Punch Downward 4x 180mm	each
506	Kerrison Punch Jacobs 90° Upwards 180x4 mm	each
507	Kerrison Punch Jacobs 90° Upwards 180x5 mm	each
MISC		
508	Amputation Saws 200mm	each
509	Murphy Skid 340 mm x 30 mm	each
510	Jansen 165 mm	each
511	Orthopedic Gloves All Size	each
NEEDLE HOLDERS		
512	Webster Needle Holders 125mm	each
513	Halsey Needle Holders Serrated 130mm	each
514	Crile-Wood Needle Holders 160mm	each
515	Mayo Hegar Needle Holder 150mm	each
516	Mayo Hegar Needle holder 180mm	each
517	Mayo Hegar Needle Holder 200mm	each
518	Hegar Needle Holders 175mm	each
519	Masson Needle holder 265mm	each
520	GILLIES Needle holder with Scissors 150mm	each
521	Hegar Needle Holder T.C Inserts 200mm	each
522	Mayo-Hegar Needle Holder T.C Inserts 160mm	each
523	Bozemann needle holder 20 cm	each
524	Bozemann needle holder 26 cm	each
525	Martin Needle Holder T.C 150mm	each
526	Sarot Needle holder 180 mm	each
527	Sarot Needle holder 260 mm	each
528	Gastrotejio Needle Holder T.C with Catch 140mm St.	each
OSTEOTOMES		
529	Stille Osteotomes 205 mm double side pointed 8 mm	each
530	Stille Osteotome 205 mm double pointed 12 mm	each
531	Stille Osteotome 205 mm x 10 mm	each
532	Stille Osteotomes 12x 205mm	each
533	Stille Osteotome 205 mm x 15 mm	each
534	Stille Osteotomes 20x205mm	each
535	Osteotomes Straight 25 x 205mm	each
536	Stille Osteotomes 205mm x 10mm Curved	each
537	Stille Osteotomes 205mm x 15mm Curved	each
538	Stille Osteotomes Curved 20 x 205mm	each
539	LAMBOTTE Osteotomes Straight 10mm	each
540	Lever Osteotome angled 275 mm x 10 mm Fibre handle	each
541	Lever Osteotome angled 275 mm x 15 mm Fibre handle	each

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

PELVIC FORCEPS

- 542 Pelvic Reduction forceps straight 2 point X 250mm each
543 Pelvic Reduction forcep Angled 2 point X 250mm each
544 Pelvic Reduction forcep Straight 2 point X 400mm each
545 Pelvic Reduction forcep Straight 3 point X 400mm each

PLASTER INSTRUMENTS

- 546 Engel Plaster Saw 160 mm each
547 Esnatch Plaster Cutting Scissors 250mm each
548 Seutin Plaster Scissors 230 mm each
549 Hennig Plaster spreader 270 mm each

RASPATORIES

- 550 Paulsen 205 x 4.5mm each
551 Howarth Sharp / Blunt 215 mm each
552 Macdonald Blunt / blunt 185 mm each
553 Adson 170 mm Sharp 8 mm each
554 Caspar 180 mm each
555 Fabraeuf 140 mm serrated curved 12.5 mm each
556 Langenback Rasptatory 180 mm x 14 mm 90 degree each
557 Sedillot 215 mm 9 mm each

RONGUERS

- 558 Well - Blakesley Rongeur Straight 120x 3.6 mm each
559 Well - Blakesley Rongeur 130 Upwards 4.2 mm each
560 Well - Blakesley Rongeur 130 Upwards 4.8 mm each
561 Well - Blakesley Rongeur 130 Upwards 5.8 mm each
562 Caspar Rongeur 155 mm each
563 Caspar Rongeur 130 Upwards 3 mm each
564 Caspar Rongeur Straight 155x4mm each
565 Caspar Rongeurs 155 Straight 5mm each
566 Caspar Rongeur 150 Upwards 2 mm each
567 Caspar Rongeur 150 Upwards 3 mm each
568 Caspar Rongeur 150 Upwards 4 mm each
569 Caspar Rongeur 150 Downwards 2 mm each
570 Caspar Rongeur 150 Downwards 3 mm each
571 Caspar Rongeur 150 Downwards 4 mm each
572 Caspar Rongeur 185 mm 2 x 12 mm each
573 Caspar Rongeur 185 mm 3 x 12 mm each
574 Caspar Rongeurs Straight 4x14x185mm each
575 Caspar Rongeur Upward 3x12mm each
576 Caspar Rongeur 185 mm 4 x 14 mm each
577 CASPAR Rongeurs Downward 3 x 12mm each
578 Caspar Rongeur Jaw Moveble 185 mm 4 x 14 mm each
579 Caspar Osteophyte Rongeur 185 mm x 4mm each

SCALPEL HOLDERS

- 580 Scalpel Handle No.4 Solid each
581 Scalpel Double Handle No.4 + No.3 Solid each
582 Scalpel holder No 4 L Straight Solid each
583 Scalpel Handle No.3 Solid 120mm each
584 Scalpel holder No 3 L Straight Solid, Long 21.5 cm each
585 Scalpel holder No 7 Solid 160mm each
586 Collin No. 8 Hollow each

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

Don't forget

SCISSORS		
587	Micro Scissors Cvd "Spring Type" Flat Handles 120mm	each
588	Castroviejo Scissors 6"	each
589	Yasargil Micro Scissors Curved, Bayonet Shape 200mm	each
590	Standard Scissor Straight Pointed 120mm	each
591	Standard Scissor Curved Pointed 120mm	each
592	Dissecting and Strabismus Scissors 115mm	each
593	METZENBAUM Dissecting Scissors 145mm Str.	each
594	METZENBAUM Dissecting Scissors 145mm Cvd.	each
595	Standard Surgical Scissors Str. 130mm (Sh/Bl.)	each
596	Standard Surgical Scissors Str. 150mm (Sh/Bl.)	each
597	Standard Surgical Scissors Str. 185mm (Sh/Bl.)	each
598	Surgical Scissors Sharp/Blunt Straight 200mm	each
599	Standard Surgical Scissors Cu. 130mm (Sh/Bl.)	each
600	Standard Surgical Scissors Cu. 150mm (Sh/Bl.)	each
601	Standard Surgical Scissors Str. 130mm Blunt	each
602	Standard Surgical Scissors Blunt Str.150mm	each
603	Standard Surgical Scissors Str. 165mm Blunt	each
604	Standard Surgical Scissors Straight 175mm Blunt	each
605	Standard Surgical Scissors Cu. 130mm Blunt	each
606	Standard Surgical Scissors Cu. 150mm Blunt	each
607	Standard Surgical Scissors Cu. 165mm Blunt	each
608	Standard Surgical Scissors Sharp Straight 145mm	each
609	Standard Surgical Scissors 200mm Str. Sharp	each
610	Standard Surgical Scissors 145mm Cvd. Sharp	each
611	Standard Surgical Scissors 200mm Cvd. Sharp	each
612	Standard Scissors Cvd. 150mm	each
613	Graefe Dissecting Scissors 110mm	each
614	De-Bakey Aterotomy Scissors 175mm	each
615	Mayo Scissors Straight 140mm	each
616	Mayo Scissors Straight 170mm	each
617	Mayo Scissors Curved 140mm	each
618	Mayo Scissors Curved 170mm	each
619	Mayo Scissors with chamfered blades 215mm	each
620	Mayo Scissors with chamfered blades Curved 215mm	each
621	Baby-Metzenebaum Scissor Straight 145mm	each
622	Metzenbaum Scissor Straight 200mm	each
623	Metzenbaum Scissor Curved 200mm	each
624	Nelson Metzenbaum Scissors Str. 160mm	each
625	Nelson Metzenbaum Scissor Str. 250mm	each
626	Nelson Metzenbaum Scissors Cvd. 160mm	each
627	Nelson Metzenbaum Scissor Cvd. 250mm	each
628	Umbilical Cord Scissors 105mm	each
629	Umbilical Cord Scissors 135mm Curved	each
630	Braun Stadler Episiotomy Scissors 200mm	each
631	Spencer Ligature Scissors 95mm	each
632	Spencer Ligature Scissors 145mm	each
633	Lister Bandage Scissors 140mm	each
634	Lister Bandage Scissors 200mm	each
635	Mayo Lexter Scissor TC Curved 160 mm	each
636	Lexter Scissors TC Straight 60mm	each
637	Lexter Scissors TC 210mm	each
638	Lexter Scissors with TIC Inserts Cvd. 160mm	each
639	Mayo Scissors Cvd. TIC 7"	each
640	Metzenbaum Scissors with TIC Inserts Str. 115mm	each
641	Metzenbaum Scissors with TIC Inserts Cvd. 115mm	each

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

642	Metzenbaum Scissor TC Curved 180 mm	each
643	Metzenbaum Scissor with T C. Inserts Straight 180mm	each
644	Metzenbaum Scissor TC Curved 225 mm	each
645	Metzenbaum Fino Scissors with TC Inserts Cvd. 140mm	each
646	Metzenbaum Fino Scissor TC Straight 140 mm	each
647	Metzenbaum Fino Scissor TC Curved 180 mm	each
648	Metzenbaum Fino Scissor TC Curved 200 mm	each
649	Goldmann Fox Scissors 130mm	each
650	Goldmann Fox Scissor TC Pointed 130 mm	each
651	Suture Scissors with T C Inserts 170mm	each
652	Suture Scissors with T C Inserts 230mm	each
653	Adson Forceps TC Pointed 120 mm	each
654	Oehler Forceps TC Toothed 140 mm	each
SCREW DRIVERS		
655	1.5NM Torque Limiting Handle	each
656	4.0NM / Torque Limiting Handle	each
657	3.5mm Torque Limiting Screw Driver Bit	each
658	4.5mm Torque Limiting Screw Driver Bit	each
SELF RETAINING RETRACTORS		
659	Jansen Self-Retaining Retractor 100mm	each
660	Jansen Self-Retaining Retractors Blunt 100mm	each
661	Weitlaner Self-Retaining Retractors Blunt 110mm	each
662	Weitlaner Self Retaining Ret. Semi sharp 130 mm	each
663	Weitlaner Self Retaining Ret. Sharp 130 mm	each
664	Wullsten Self-Retaining Retractors Sharp 165mm	each
665	Weitlaner Self-Retaining Ret. Sharp 165 mm	each
666	ADSON BABY Blunt Retractor 140mm	each
667	MOLLISON Sharp Retractor 155mm	each
668	Norfolk & Norwich Self Retaining Ret. Blunt 220 mm	each
669	Beckmann Adson Self Rig Ret. Hinged Sharp 310 mm	each
670	JACKSON, BURROWS Retractor Blunt 185mm	each
671	Inge Laminar Spreader 275 mm	each
SPECIAL RETRACTORS		
672	Gelpi Vaginal Retractors 135mm	each
TOWEL CLAMPS		
673	Towel Clamp JONES 85mm	each
674	Towel Clamp SCHAEDEL 85mm	each
675	Towel Clamp SCHÄDEL Curved 85mm	each
676	Towel Clamp BACKHAUS 80mm with Ratchet	each
677	Towel Clamp BACKHAUS 105mm with Ratchet	each
678	Backhaus Towel Clamp 110mm	each
679	Backhaus Towel Clamp 135mm	each
680	Backhaus-Kocher Towel Clamp 135mm	each
WIRE CUTTING PLIER		
681	Wire cutter Front & lateral 180 mm x 1.5 mm	each
682	Wire cutter Durotip Front 235 mm x 2.2 mm	each
683	Moun MAKE Wire Cutter TC (CAN CUT UPTO 1.5MM)	each
684	Wire cutter Lateral 220 mm x 2.5 mm	each
685	Wire cutter Tibia up to 470mm dia	each
686	Mullan Claus Wire cutter TC Insert angled 220 mm	each
687	Bone Nibbler Double - Action- 6" Straight	each
688	Bone Nibbler Double - Action- 6" Straight	each

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

689	Bone Nibbler Double - Action- 6" Cvd.	6"					
690	Bone Nibbler Double - Action-7½" Str.	7½"					
691	Bone Nibbler Double - Action-7½" Curved	7½"					
692	Bone Nibbler Double - Action 9" Straight	9"					
693	Bone Nibbler Double - Action 9" Curved	9"					
694	Stille Luer Rongeur Str. 225mm	225mm					
695	Duck-Bill Rongeur Cvd. 225mm	225mm					
696	Duck-Bill Rongeur Double Action	230mm					
697	Lekshell Ronger	230mm					
698	Bone Cutter - Double Action Regular Straight	7½"					
699	Bone Cutter - Double Action Regular Curved	7½"					
700	Bone Cutter - Double Action 9" Straight	9"					
701	Bone Cutter - Double Action 9" Curved	9"					
702	Bone Cutter - Heavy D/A	each					
703	Bone Cutter - Tudor Edward - Big Cvd.	each					
704	Osteotomes F/H Str	10mm					
705	Osteotomes F/H Cvd	15mm					
706	Osteotomes with S.S Handle Straight	5mm					
707	Osteotomes with S.S Handle Straight	5mm					
708	Osteotomes with S.S Handle Straight	10mm					
709	Osteotomes with S.S Handle Straight	15mm					
710	Osteotomes with S.S Handle Straight	20mm					
711	Osteotomes with S.S Handle Straight	25mm					
712	Osteotomes with S.S Handle Cvd	5mm					
713	Osteotomes with S.S Handle Cvd.	10mm					
714	Osteotomes with S.S Handle Cvd	15mm					
715	Osteotomes with S.S Handle Cvd	20mm					
716	Osteotomes with S.S Handle Cvd	25mm					
717	Bone Gouge S.S Handle Str	5mm					
718	Bone Gouge S.S Handle Str	10mm					
719	Bone Gouge S.S Handle Cvd	15mm					
720	Bone Gouge S.S Handle Cvd	20mm					
721	Bone Gouge S.S Handle Cvd	5mm					
722	Bone Gouge S.S Handle Cvd.	10mm					
723	Bone Gouge S.S Handle Cvd.	15mm					
724	Bone Gouge S.S Handle Cvd.	20mm					
725	Bone Gouge F/H Str.	15mm					
726	Chisel S.S Handle Str.	5mm					
727	Chisel S.S Handle Str.	10mm					
728	Chisel S.S Handle Str.	15mm					
729	Chisel S.S Handle Str.	20mm					
730	Chisel S.S Handle Cvd	10mm					
731	Chisel S.S Handle Cvd	15mm					
732	Chisel F/H Str.	10mm					
733	Bone Lever Plain	10mm					
734	Bone Lever Plain	15mm					
735	Bone Lever Serrated	Large					
736	Bone Lever Serrated	Small					
737	Hohmann Retractor	10mm					
738	Hohmann Retractor	15mm					
739	Hohmann Retractor	20mm					
740	Hohmann Retractor	25mm					
741	Bone Hook	Small					
742	Bone Hook	Medium					
743	Bone Hook	Large					
744	Cat Paw Retractor						
745	Leganback Refractor 5mm	Small					

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

745	Leganback Retractor 10mm,15mm	Medium						
747	Leganback Retractor 20mm	Large						
748	Skin Hook	each						
749	Perosteum Elevator S.S.Handle Str.	5mm						
750	Perosteum Elevator S.S.Handle Str.	10mm						
751	Perosteum Elevator S.S.Handle Str.	15mm						
752	Perosteum Elevator S.S.Handle Cvd.	5mm						
753	Perosteum Elevator S.S.Handle Cvd.	10mm						
754	Perosteum Elevator S.S.Handle Cvd.	15mm						
755	Bristow Perosteum Elevator	each						
756	Volkman Retractor	2 prong						
757	Volkman Retractor	4 prong						
758	Self Centering Forcep A.O. Type	6"						
759	Self Centering Forcep A.O. Type	8"						
760	Self Centering Forcep A.O. Type	10"						
761	Reduction Forcep Serrated	6"						
762	Reduction Forcep Serrated							
763	Reduction Forcep Serrated							
764	Reduction Forcep with pointed (Speed Lock)	10"						
765	Reduction Forcep with pointed (Speed Lock)	6"						
766	Reduction Forcep with pointed (Speed Lock)	8"						
767	Pattella Clamp Single Pronge	10"						
768	Pattella Clamp Single Pronge With Gaurd	8"						
769	Pattella Clamp Double-Pronge With Gaurd	10"						
770	Pattella Clamp Double-Pronge	10"						
771	Lowman Bone Holding Clamp	6"						
772	Lowman Bone Holding Clamp	8"						
773	Burns Bone Holding Forcep	6"						
774	Burns Bone Holding Forcep	8"						
775	Heygroove's Bone Holding Forceps 8" Long	8" long						
776	Heygroove's Bone Holding Forces 10" Long	10" long						
777	Heygrove's Bone Holding Forceps 12" Long	12" long						
778	Plate Holding Forceps	6"						
779	Plate Holding Forceps	8"						
780	Plate Holding Forceps	10"						
781	Plaster Saw Big	each						
782	Plaster Bender	each						
783	Plaster spreader Regular	each						
784	Plaster shear	each						
785	Multipurpose Pier 9"	each						
786	Plate Bender in Pair	each						
787	K-wire Cutter (Round type) Large	each						
788	'T' Handle with Chuck & key	each						
789	Wire Passer With Fibre Handle	Small						
790	Wire Passer With Fibre Handle	Medium						
791	Wire Passer With Fibre Handle	Large						
792	Wire Passer Percutenuse	each						
793	Charnley Retractor with Two Regular Blade	each						
794	Cobb's Elevator	15mm						
795	Rod cutter 18"	18"						
796	Lamina Spreader Small 6"	6"						
797	Lamina Spreader Medium 8"	8"						
798	Lamina Spreader Large 10"	10"						
799	Disc Punch - Straight	4mm						
800	Disc Punch - Upward	4mm						
801	Disc Punch - Downward	4mm						
802	Disc Punch - Straight Serrated	2mm						

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm

S. Charnley

803	Disc Punch - Straight Serrated	3mm				
804	Disc Punch - Straight Serrated	4mm				
805	Disc Punch - Upward Serrated	2mm				
806	Disc Punch - Upward Serrated	3mm				
807	Disc Punch - Upward Serrated	4mm				
808	Disc Punch - Downward Serrated	2mm				
809	Disc Punch - Downward Serrated	3mm				
810	Disc Punch - Downward Serrated	4mm				
811	Kerrision Punch upward 7" (45° Angle)	1mm				
812	Kerrision Punch upward 7" (45° Angle)	2mm				
813	Kerrision Punch upward 7" (45° Angle)	3mm				
814	Kerrision Punch upward 7" (45° Angle)	4mm				
815	Kerrision Punch upward 7" (45° Angle)	5mm				
816	Kerrision Punch Downward 7" (45° Angle)	3mm				
817	Kerrision Punch Downward 7" (45° Angle)	5mm				
818	Kerrision Punch upward 7" (90° Angle)	1mm				
819	Kerrision Punch upward 7" (90° Angle)	2mm				
820	Kerrision Punch upward 7" (90° Angle)	3mm				
821	Kerrision Punch upward 7" (90° Angle)	4mm				
822	Kerrision Punch upward 7" (90° Angle)	5mm				
823	Kerrision Punch Downward 7" (90° Angle)	1mm				
824	Kerrision Punch Downward 7" (90° Angle)	2mm				
825	Kerrision Punch Downward 7" (90° Angle)	3mm				
826	Kerrision Punch Downward 7" (90° Angle)	4mm				
827	Kerrision Punch Downward 7" (90° Angle)	5mm				
828	Bone Scoop Double Ended	each				
829	Bone Graft Impactor	each				
830	Mastoid Retractor Str	6"				
831	Mastoid Retractor Str	8"				
832	Mastoid Retractor Str	10"				
833	Mastoid Retractor Str	6"				
834	Mastoid Retractor Cvd	8"				
835	Mastoid Retractor Cvd	10"				
836	Laminectomy Retractor with follow-up Blades	8"				
837	Laminectomy Retractor with follow-up Blades	10"				
838	Laminectomy Retractor with follow-up Blades	12"				
839	Skin Grafting Handle	each				
840	Hammer Fiber Handle	350gm				
841	Hammer Fiber Handle	500gm				
842	Hammer Fiber Handle	1kg				

The
Instrument
Set Would
Essentially
be provided
by the Firm


JNT. DIR. CUM HOSP. SUPPL.
GOVT. MEDICAL COLLEGE
KORBA (C.G.)